

HAMIRPUR POLICE



साइबर सेत

दिनांक 14.11.2022

साइबर सेल द्वारा 02 आवेदकों का ऑनलाइन फ्रॉड/गलत ट्रांजेक्शन के 01 लाख 25 हजार रूपये वापस करवाये गये-

अवगत कराना है कि आये दिन साइबर अपराधियों द्वारा आम जनता को भ्रमित कर उनके बैंक खाते एवं क्रडिट कार्ड आदि से जुडी गोपनीय जानकारी अर्जित कर यूपीआई व अन्य के माध्यम से साइबर फ्रॉड/धोखाधडी की जा रही हैं।

उक्त के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु साइबर सेल हमीरपुर द्वारा निरन्तर अभियान चला कर कार्यवाही की जा रही हैं।

इसी क्रम में साइबर सेल हमीरपुर द्वारा कुल 02 आवेदकों से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त कर तत्परता से कार्यवाही करते हुए 1,25,000/- रुपये की घनराशि शिकायतकर्ताओं के खाते में वापस करवाई गई, शेष राशि की बरामदगी हेतु प्रयास किया जा रहा है, अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। आवेदकों का विवरण:-

- 01) सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भान प्रताप निवासी ग्राम कुर्रा थाना राठ जनपद हमीरपुर ने दिनाँक 07/11/2022 को प्रार्थना पत्र दे कर अवगत कराया कि वह दिल्ली में रिक्सा चालक है, मेहनत-मजदूरी कर 01 लाख रुपये इकट्ठा किया था अज्ञात न्यक्ति द्धारा रिस्तेदार बन कर उनको मनी रिक्वेस्ट भेजा गया, जिसके माध्यम से 99,000/- रुपये का फ्रॉड किया गया, आवेदक की 95,000/- रुपये की धनराशि वापस करवाई गई। शेष राशि की बरामदगी हेतु प्रयास किया जा रहा है।
- 02) संदीप कुमार पुत्र दिल्लीपत साहू निवासी बुधौलियाना थाना राठ द्वारा दिनाँक 01.09.2022 को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उनके द्वारा गलती से किसी अज्ञात न्यक्ति के खाते में 30,000/- रुपये ट्रांसफर कर दिये गये थे, आवेदक के खाते में सम्पूर्ण धनराशि वापस करवायी गई।

बरामद्गी करने वाली टीम:-

- 1)नि० बृजेश कुमार यादव
- 2)हे0का0 संदीप यादव
- 3)आ० वाहिद खान

- ४)आ० यूनिश खान
- 5)आ० चन्द्र भुवन
- 6) आ० विनोद विश्वकर्मा



आवश्यक सूचना-

आज कल साइबर अपराधी कॉल करके स्वयं को रिस्तेदार/मित्र बताता है और रकम भेजने की बात करता है, लेकिन मनी रिक्वेस्ट भेजता है, OTO/UPI पिन डालने पर पीडित के खाते से रकम कट जाती है,

यदि किसी के साथ वित्तीय साइबर फ्रॉड़ होता है तो तुरंत साइबर सेल, संबंधित थाना या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि तुरंत कार्यवाही की जा सके।